

00868

**DIPLOMA IN VALUE ADDED PRODUCTS  
FROM FRUITS AND VEGETABLES  
(D.V.A.P.F.V.)**

Term-End Examination

June, 2011

**BPVI-003 : FOOD CHEMISTRY AND  
PHYSIOLOGY**

*Time : 2 hours*

*Maximum Marks : 50*

*Note : Attempt any five questions. Q. No. 1. is compulsory  
All questions carry equal marks.*

---

**1. Define *any ten* of the followings :                   10x1=10**

- (a) Hexoses
- (b) Food addatatives
- (c) Sweeteners
- (d) Food chemistry
- (e) Organic acid
- (f) Rancidity
- (g) hydrogenation
- (h) Lipases
- (i) Climacteric fruits
- (j) Senescence
- (k) Pruning
- (l) amino acid

2. Attempt *any two* of the followings :  $5 \times 2 = 10$

- (a) Waste management
- (b) Vinegar preparation
- (c) Modified atmosphere storage
- (d) Fermented foods

3. (a) Tick the **correct** word. (✓)  $1 \times 5 = 5$

- (i) Vitamin D is water/fat soluble
- (ii) Vitamin A is water/fat soluble
- (iii) Vitamin C is water/fat soluble
- (iv) Vitamin K is water/fat soluble
- (v) Vitamin  $B_{12}$  is water/fat soluble

(b) Mark the following preservative as class I or class II preservatives :  $1 \times 5 = 5$

- (i) Sorbic acid
- (ii) Vegetable oil
- (iii) Acetic acid
- (iv) Benzoic acid
- (v) Sugar

4. (a) Which mineral or vitamin is related to the following diseases ?  $5 \times 1 = 5$

- (i) Pellagra
- (ii) Anaemia
- (iii) Scurvy
- (iv) Beriberi
- (v) Dental caries

(b) Mark high (H) or low(L) protein food in the followings : **5x1=5**

- (i) Maize
- (ii) Green gram
- (iii) Pigeonpea
- (iv) Barley
- (v) Soybean

5. Write short notes on *any four* of the followings :

- (a) Chemical removal of ethylene **4x2½=10**
- (b) Chilling injury
- (c) Non-enzymatic Browning
- (d) Balanced diet
- (e) Protein
- (f) Climacteric rise in respiration

6. Differentiate between *any five* of the followings :

- (a) Cider and brandy. **5x2=10**
- (b) Class I and class II preservatives.
- (c) Nutritive and non-nutritive sweetness.
- (d) Soft and hard water.
- (e) Albumins and lipoproteins.
- (f) Fruits and vegetables.
- (g) Legume and cereals.

7. (a) Arrange the followings from high to low degree of sweetness :  $5 \times 1 = 5$

- (i) Saccharin
- (ii) Fructose
- (iii) Honey
- (iv) Sucrose
- (v) Glucose

(b) Which vitamin is found in very high amount in the following food ?  $5 \times 1 = 5$

- (i) Egg
- (ii) Fish
- (iii) Carrot
- (iv) Lemon
- (v) Cereal husk

8. (a) Discuss the important factors influencing the quality of wine.  $2 \times 5 = 10$

(b) What are the importance of minerals in an daily food ?

---

फलों एवं सब्जियों के मूल्य संवर्धित उत्पादों  
के उत्पादन पर आधारित डिप्लोमा  
( डी.वी.ए.पी.एफ.वी. )

सत्रांत परीक्षा

जून, 2011

बी.पी.वी.आई.-003 : खाद्य रसायन एवं कार्यकी

समय : 2 घण्टे

अधिकतम अंक : 50

नोट : कुल पाँच के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 का उत्तर देना अनिवार्य है।  
सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

---

1. किन्हीं दस को परिभाषित कीजिए : 10x1=10

- (a) हेक्सोसिस।
- (b) खाद्य योज्य
- (c) मीठापन
- (d) खाद्य रासायनविज्ञान
- (e) जैव अम्ल
- (f) विकृतगंधिता
- (g) हाइड्रोजिनेशन
- (h) लाइपेज
- (i) संकटग्रस्त फ्ल
- (j) जीर्णता
- (k) काट-छाँट
- (l) अमीनो अम्ल

2. किन्हीं दो को स्पष्ट कीजिए। 5x2=10

- (a) अपशिष्ट प्रबंधन।
- (b) सिरका निर्माण।
- (c) परिवर्तित वायुमंडलीय भंडारण।
- (d) किण्वित खाद्य।

3. (a) सही शब्द पर (✓) का निशान लगाएँ। 1x5=5

- (i) विटामिन डी, जल/वसा घुलनशील है।
- (ii) विटामिन ए, जल / वसा घुलनशील है।
- (iii) विटामिन सी, जल / वसा घुलनशील है।
- (iv) विटामिन के, जल/वसा घुलनशील है।
- (v) विटामिन बी<sub>12</sub> जल/वसा घुलनशील है।

(b) निम्नलिखित परिक्षक को वर्ग I या वर्ग II परिक्षक के रूप में चिह्नित करें : 1x5=5

- (i) सार्विक अम्ल।
- (ii) वनस्पति (खाद्य) तेल।
- (iii) एसिटिक अम्ल।
- (iv) बेनजोइक अम्ल।
- (v) शर्करा।

4. (a) किसी खनिज तत्व या विटामिन का संबंध निम्नलिखित  
रोगों से हैं :  $5 \times 1 = 5$

- (i) पेलाग्रा
- (ii) खून की कमी (एनीमिया)।
- (iii) स्कर्वी
- (iv) बरीबेरी
- (v) दंत क्षय

(b) निम्नलिखित को उच्च या निम्न प्रोटीनयुक्त खाद्यपदार्थ  
के रूप में चिह्नित करें :  $5 \times 1 = 5$

- (i) मक्का (ii) मूँग
- (iii) अरहर (iv) जौ
- (v) सोयाबीन

5. किन्हीं चार पर संक्षेप में नोट लिखिए।  $4 \times 2 \frac{1}{2} = 10$

- (a) एथीलिन का रासायनिक निराकरण।
- (b) द्रुतशीतन क्षति।
- (c) गैर-एंजाइमी भूरापन।
- (d) संतुलित आहार।
- (e) प्रोटीन
- (f) श्वसन में संकटकालीन वृद्धि।

6. किन्हीं पाँच में अंतर स्पष्ट कीजिए।  $5 \times 2 = 10$

- (a) साइडर एवं ब्रांडी।
- (b) वर्ग I एवं वर्ग II परिक्षक।
- (c) पोषणिक एवं गैर-पोषणिक मधुकारी।
- (d) मृदु एवं कठोर जल।
- (e) ऐल्बूमेन एवं लाइपोप्रोटीन।
- (f) फल एवं सब्जियाँ।
- (g) फलीदार एवं खाद्यान्न।

7. (a) निम्नलिखित को मीठेपन की उच्च से निम्न कोटि के आधार पर व्यवस्थित करें :  $5 \times 1 = 5$

- (i) सैकराइन। (ii) फ्रूटोज़।
- (iii) शहद। (iv) सुक्रोज़।
- (v) ग्लूकोज़।

(b) निम्नलिखित खाद्यपदार्थ में कौनसा विटामिन बेहद उच्च मात्रा में विद्यमान होता है ?  $5 \times 1 = 5$

- (i) अंडा। (ii) मछली।
- (iii) गाजर। (iv) नींबू।
- (v) खाद्यान्न भूसी।

8. (a) मदिरा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों की चर्चा कीजिए।  $2 \times 5 = 10$

(b) हमारे दैनिक आहार में खनिज तत्वों का महत्व क्या हैं ?

---